


पौष्टि ग्रन्थि वृद्धि (मूत्राषीला)



वरुण



केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्
आयुष मंत्रालय
(आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)
भारत सरकार

BPH (पौरुष ग्रन्थि की सौम्य वृद्धि)

वायु मूत्राशय एवं गुदप्रदेश में अवरोध उत्पन्न कर उन्हें फुलाकर पाषाणखण्ड के समान कठोर, चलायमान, लटका हुआ, अत्यंत शूलयुक्त ग्रन्थि पैदा कर मल व मूत्र का अवरोध पैदा करती है।

मूत्ररोग

मूत्रमार्ग में होने वाले रोग जिसके कारण दाह, दंश के समान शूल व मूत्रत्याग में कठिनाई होती है। ये अनेक कारणों से होते हैं जैसे संक्रमण आदि।

BPH (पौरुष ग्रन्थि की सौम्य वृद्धि—मूत्ररोग के क्या लक्षण हैं ?)

- मूत्राशय का पूर्णरूप से खाली न होना
- रात्रि में बार-बार मूत्रत्याग
- मूत्रत्याग के मध्य की अवधि का कम होना
- मूत्रत्याग के प्रारम्भ में कठिनाई
- मूत्रप्रवृत्ति के समय जोर लगाना
- मूत्र की धार का कमजोर होना एवं बूँद-बूँद कर टपकना



पुनर्नवा

मूत्ररोग

- दाह के साथ मूत्रत्याग
- मूत्रमार्ग में दाहयुक्त शूल
- मूत्रत्याग के दौरान व कुछ देर बाद तक नाभिप्रदेश के नीचे शूल
- कुक्षिशूल
- मूत्राशय खाली होने के पश्चात् भी मूत्रत्याग की प्रबल इच्छा
- कंपकंपी सहित ज्वर, हल्लास या वमन
- कभी-कभी मूत्रत्याग के साथ रक्त अथवा पूय की प्रवृत्ति



गोक्षुर

आयुर्वेदीय उपचार

दोषों की प्रबलता के आधार पर सभी का उपचार मूत्र-विरेचनीय द्रव्यों, बस्ति व मूत्रबस्ति के द्वारा करना चाहिए

- स्नेहन
- स्वेदन
- विरेचन
- बस्ति (औषधयुक्त एनीमा)—स्थिति के अनुसार

कतिपय प्रमुख आयुर्वेदिक योग

- चन्द्रप्रभा वटी
- गोक्षुरादि गुग्गुलु
- श्वेत पर्पटी



नारियल



शिग्रु

कतिपय लाभकर वानस्पतिक द्रव्य

- | | |
|------------|-----------------------|
| ➤ वर्लण | (Crataeva nurvula) |
| ➤ गोक्षुर | (Tribulus terrestris) |
| ➤ पुनर्नवा | (Boerhavia diffusa) |
| ➤ नारिकेल | (Cocas nucifera) |
| ➤ शिग्रु | (Moringa oleifera) |
| ➤ पाषाणभेद | (Saxifraga ligulata) |

पथ्य (क्या करें) ✓

- ✓ गेहूं, पुराना चावल, मुद्द (साबुत मूंग) सूप, कुलत्थ (कुलथी), यवोदक (जौ का पानी)
- ✓ लहसुन, हल्दी, अदरक, पटोल (परवल), शिग्रु (सहिजन), नारियल, खीरा, तरबूज, धनियां
- ✓ जीरा, गन्ना, अंगूर, तक्र आदि
- ✓ पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन
- ✓ अवगाह (पानी से भरे टब में बैठना), शीतजल स्नान, स्वेदन आदि



पाषाणभेद

अपथ्य (क्या न करें) ✗

- ✗ टमाटर, मटर, काले चने, पालक
- ✗ जामुन, सरसों, तिल, गुड़, अधिक गर्म व मसालेदार भोजन आदि
- ✗ प्राकृतिक वेगों का धारण —अधिक गर्मी का सेवन

महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संदर्भ एवं पाठ्य सामग्री

- कविराज अम्बिकादत्त शास्त्री : सुश्रुत संहिता, चौरवम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 10 वां संस्करण, 1996
- प्रो. पी. वी. शर्मा, : चरक संहिता भाग 1व 2 (अंग्रेजी अनुवादित संहिता), चौरवम्बा ओरियन्टलिया, गोकुल भवन, झ.37 ₹109एण गोपाल मंदिर लेन, वाराणसी –1 (भारत) प्रथम संस्करण, 1983.
- सप्रा उमेश कुमार व अन्य “रिसेन्ट एडवांसेज इन दी फील्ड ऑफ यूटीआई इन आयुर्वेद “दी जरनल ऑफ रिसर्च एंड एजूकेशन इन इंडियन मेडिसिन, खण्ड ग्म. 2 ए आई. एस. एन. 0970–7700 अप्रैल–जून, 2007